



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्रतिभार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 10, 1983/पौष 20, 1904

No. 13]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 10, 1983/PAUSA 20, 1904

इस भाग में जिन पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

गृह मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1983

सां० कां० नि० 17(अ)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवा)  
नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) तथा (2) के प्रथम  
परन्तुक के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951  
का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग  
करते हुए, केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय  
प्रशासनिक सेवा (सर्वग्रे सख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और  
आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है,  
यथा:-

1 (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (सर्वग्रे  
में पद सख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1983 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू  
होंगे।

2 भारतीय प्रशासनिक सेवा (सर्वग्रे में पद सख्या का नियतन)  
विनियम, 1955 की अनुसूची में 'पश्चिमी बंगाल' के अन्तर्गत विद्यमान  
प्रतिष्ठित--

'मन्त्रि, गृह (कां० और प्र० सू०) विभाग---1'

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी।  
'मन्त्रि, शिक्षा विभाग-----1''

टिप्पणी -- मूल विनियम दिनांक, 22-10-1955 के एम० आर० धो०  
संख्या 3350 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए थे।  
पश्चिमी बंगाल सर्वग्रे के संबंध में विनियमों की दिनांक  
22-9-73 के सां० कां० नि० में 450(प्र), दिनांक 26-8-74  
के 373(प्र), दिनांक 25-1-75 के 95, दिनांक 25-6-76  
424(प्र), दिनांक 28-10-77 के 654(प्र), दिनांक  
29-7-78 के 951, दिनांक 16-2-80 के 176 दिनांक  
18-3-80 के 104(प्र) दिनांक 7-10-80 के 571 (प्र)  
तथा दिनांक 20-10-82 के 618(प्र) द्वारा संशोधित किए  
गए हैं।

[संख्या 11031/1/83 प्र० भा० में (2) क]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 1983

G.S.R. 17(E)--In exercise of the powers conferred by  
sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act,

1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "West Bengal" for the existing entries, namely :—

"Secretary, Home (P&AR) Department — 1"

the following shall be substituted, namely :—

"Secretary, Education Department — 1"

Note :—The principal regulations were published in the Gazette vide SRO No. 3350 dated 22-10-1955. The Regulations in respect of West Bengal Cadre have been amended vide GSR Nos. 450(E) dated 22-9-73, 373(E) dt. 26-8-74, 95 dt. 25-1-75 424(E) dt. 25-6-76, 634(E) dt. 28-10-77, 951 dt. 29-7-78, 176 dt. 16-2-80, 104(E) dt. 18.3.80, 571(E) dt. 7-10-80 and 618 (F) dated 20-10-1982.

[No. 11031/1/83-AIS(II)-A]

#### अधिसूचना

सा० का० नि० सं० 18(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित ग्रन्थिल भारतीय सेवाएं, अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1983 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2 भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में अनुसूची 3-क में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के समय वेतनमान से ऊपर वेतन वाले पद, मारणी में, प्रथम कालक्रम में आने वाली 'पश्चिमी बंगाल' प्रविष्टि में दूसरे तथा तीसरे कालक्रम में तत्संबंधी प्रविष्टि :—

'सचिव, गृह (पी० एण्ड ए० आर०) विभाग—र० 3000' के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं।

'सचिव, शिक्षा विभाग—र० 3000'

टिप्पणी:— प्रधान नियम दिनांक 14-9-1954 के गजट संख्या 158 के द्वारा प्रकाशित किया गया था। पश्चिमी बंगाल के संबंध में प्रधान नियमों की अनुसूची III को क्रमशः दिनांक, 26-8-74 25-6-76, 1-11-76, 28-10-77, 29-7-78, 7-10-80 और 20-10-82 की सा० का० नि० सं० 374 अ०, 425 अ०, 859 अ०, 655 अ०, 952, 572 अ० और 619 अ० द्वारा संशोधित किया गया है।

[संख्या 11031/1/83-अ० आ० में (2) (ख)]

एन० पी० कुरुप, डेस्क अधिकारी

G.S.R. 18(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, in Schedule III, under the heading "A-Posts carrying pay above the time scale in the Indian Administrative Service under the State Governments", in the Table, against the entry "West Bengal" occurring in the first column, for the corresponding entries in the second and third columns, namely :—

"Secretary, Home (P&AR) Department—Rs. 3000"—, the following shall be substituted, namely :—

"Secretary, Education Department — Rs. 3000"—.

Note :—The Principal Rules were published vide Gazette No. 158 dated 14-9-1954. Schedule III of the Principal Rules in respect of West Bengal have been amended vide G.S.R. Nos. 374(E) dated 26-8-74, 425(E), dated 25-6-76, 859(E) dated 1-11-76, 655(E) dt. 28-10-77, 952 dated 29-7-78, 572(E) dt. 7-10-80 & 619(E) dt. 20.10.82.

[No. 11031/1/83-AIS. II-B]

M. P. KURUP, Desk Officer